

## प्रेस विज्ञप्ति

# दमण पुलिस विभाग ने निकाली तिरंगा रैली, हर घर पर की तिरंगा लहराने की अपील

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। यह महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न केवल भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि उनके भीतर प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत 2.0 को सक्रिय करने के दृष्टिकोण को सक्षम एवं आत्मनिर्भर भारत को शक्ति और क्षमता भी है। इसके तहत भारत सरकार द्वारा "हर घर तिरंगा" अभियान शुरू किया गया है।

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव के माननीय प्रशासक श्री प्रफुल पटेल जी के कुशल नेतृत्व में आज सुबह 06:30 बजे "आजादी का अमृत महोत्सव" के अंतर्गत, दमण जिला पुलिस विभाग द्वारा एक बाइक/साईकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को प्रशासक के सलाहकार श्री विकास आनंद जी एवं पुलिस उप महानिरीक्षक श्री डुंबरे मिलिंद महादेव जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस बाइक रैली में पुलिस विभाग, फायर विभाग, आईआरबीएन विभाग के जवानों एवं स्कूली छात्रों ने जमकर राष्ट्रभक्ति के नारे लगाए एवं उन्होंने लोगों को हर घर में तिरंगा फेहराने हेतु प्रोत्साहित किया है। चूंकि यह आजादी का 75वां वर्ष का समारोह है, इसके कारण पूरे देश में अमृत महोत्सव किया जा रहा है। इस रैली में दमण जिला समाहर्ता डॉ. तपस्या राघव जी के साथ पुलिस विभाग के 56, फायर विभाग के 26, एक्साइज़ विभाग के 26, आई.आर.बी.एन. के 26 जवान तथा 90 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। यह रैली मोटी दमण सी-फेस रोड लाइट हाउस से शुरू होकर जंपोर बीच - जंपोर चार रास्ता - ढोलर चार रास्ता - डी.एम.सी. मार्केट - मोटी दमण फोर्ट होते हुए सी-फेस रोड लाइट हाउस पर संपन्न हुई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक श्री अमित शर्मा जी, एसडीपीओ श्री मणि भूषण सिंह जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई।

गौरतलब है कि इस हर घर तिरंगा अभियान को स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। यह अभियान नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम भी करेगा। हर भारतवासी को अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है।

\*\*\*\*\*